



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 1981/फाल्गुन 19, 1902  
No. 3] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 1981/PHALGUNA 19, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

भारत निर्वाचन आयोग,

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1981

क्रा०अ० 160 (अ):—राज्य सभा के लिए आन्ध्र प्रदेश से निर्वाचित  
सदस्य श्री सत्यनारायण वेणीगल्ला की उनकी पदावधि के अवनति से पूर्व  
मृत्यु हो जाने के कारण राज्य सभा में एक रिक्ति हो गई है,

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147  
की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण से निर्वाचन आयोग आन्ध्र  
प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है  
कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए उक्त अधिनियम और तद्विधिन  
बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार तारीख 30 मार्च  
1981 से पूर्व एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/1/80(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 10th March, 1981

S.O. 160(E).—Whereas a vacancy has occurred in the  
Council of States due to the death of Shri Satyanarayana  
Venigalla, a member elected to the Council of States from  
Andhra Pradesh before the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-  
section (1) of section 147 of the Representation of the People  
Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the

elected members of the Legislative Assembly of the State  
of Andhra Pradesh to elect, in accordance with the provi-  
sions of the said Act and of the rules and orders made  
thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 30th  
March, 1981.

[No. 100/CS-AP/1/80(1)]

क्रा०अ० 161 (अ):—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की  
धारा 39 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार में निर्वाचन आयोग अपनी  
तारीख 10 मार्च, 1981 की अधिसूचना सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/1/80  
(1) के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे  
में:—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख 17 मार्च, 1981 (मंगलवार)
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 18 मार्च, 1981 (बुधवार)
- (ग) अर्धवर्षिताएं वापस लेने की अंतिम 20 मार्च, 1981 (शुक्रवार)  
तारीख
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक 27 मार्च, 1981 (शुक्रवार)  
हुया तो मतदान होगा, तथा]
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन 30 मार्च, 1981 (सोमवार)  
समाप्त कर दिया जाएगा।  
नियत करता है।

[सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/1/80(2)]

**S.O. 161(E).**—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AP/1/80(1), dated the 10th March 1981.—

- (a) 17th March, 1981 (Tuesday) as the last date for making nominations;
- (b) 18th March, 1981 (Wednesday) as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) 20th March, 1981 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) 27th March, 1981 (Friday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) 30th March 1981 (Monday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-AP/1/80(2)]

**कां० 162 (अ) :—**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 10 मार्च, 1981 की अधिसूचना सं० 100/रा०सं-आ०प्र०/1/80(1) के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।

[सं० 100/रा०सं-आ०प्र०/1/80(3)]

**S.O. 162(E).**—In pursuance of section 56 the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 a.m. to 2.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AP/1/80(1), dated 10th March, 1981.

[No. 100/CS-AP/1/80(3)]

**कां० 163 (अ) :—**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०सं-आ०प्र०/1/80, (1), तारीख 10 मार्च, 1981 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए सचिव, आन्ध्र प्रदेश विधान मण्डल हैदराबाद को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है।

[सं० 100/रा०सं-आ०प्र०/1/80(4)]

**S.O. 163(E).** In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Andhra Pradesh, hereby designates the Secretary, Andhra Pradesh Legislature, Hyderabad, to be the Returning officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/SC-AP/1/80 (1), dated 10th March, 1981.

[No. 100/CS-AP/1/80(4)]

**कां० 164 (अ) :—**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 10 मार्च, 1981 की अधिसूचना सं० 100/रा०सं-आ०प्र०/1/80(1) के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए संयुक्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश विधान मण्डल, हैदराबाद को नियुक्त करता है।

[सं० 100/रा०सं-आ०प्र०/1/80(5)]

**S.O. 164(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints

the Joint Secretary, Andhra Pradesh Legislature, Hyderabad to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AP/1/80(1), dated the 10th March, 1981 in the performance of his functions

[No. 100/CS-AP/1/80(5)]

**कां० 165 (अ) :—**राज्य सभा के लिए आन्ध्र प्रदेश से निर्वाचित सदस्य श्री वेंकटराव चदालावाडा की उनकी पदावधि के अवधान से पूर्व मृत्यु हो जाने के कारण राज्य सभा में एक रिक्ति हो गई है,

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग आन्ध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचन सदस्यों में यह अपेक्षा करता है कि ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार तारीख 30 मार्च, 1981 से पूर्व एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें :

[सं० 100/रा०सं-आ०प्र०/1/81(1)]

**S.O. 165(E).** Whereas a vacancy has occurred in the Council of States due to the death of Shri Venkatarao Chadalayada, a member elected to the Council of States from Andhra Pradesh, before the expiration of his term of office :

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 30th March, 1981.

[No. 100/CS-AP/1/81(1)]

**कां० 166 (अ) :—**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०सं-आ०प्र०/1/81(1) तारीख 10 मार्च 1981 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में :—

- (क) नामनिर्देशन के लिये अन्तिम तारीख 17 मार्च, 1981 (मंगलवार)
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 18 मार्च, 1981 (बुधवार)
- (ग) अर्थात् वापस लेने की अन्तिम तारीख 20 मार्च 1981 (शुक्रवार)
- (घ) वह तारीख जिसका यदि आवश्यक हो, 27 मार्च 1981 (शुक्रवार) तो मतदान होगा तथा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन-समाप्त कर दिया जाएगा 30 मार्च 1981 (सोमवार)

नियत करता है।

[सं० 100/रा०सं-आ०प्र०/1/81(2)]

**S.O. 166(E).**—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AP/1/81(1), dated 10th March, 1981,—

- (a) 17th March, 1981 (Tuesday), as the last date for making nominations;
- (b) 18th March, 1981 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) 20th March, 1981 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

- (d) 27th March, 1981 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) 30th March, 1981 (Monday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-AP/1/81(2)]

का०आ० 167 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/1/81(1), तारीख 10 मार्च, 1981 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिनके दौरान यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा।

[सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/1/81(3)]

S.O. 167(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 a.m. to 2.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AP/1/81(1), dated 10th March, 1981.

[No. 100/CS-AP/1/81(3)]

का०आ० 168 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/1/81(1) तारीख 10 मार्च 1981 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए सचिव, आन्ध्र प्रदेश विधान मण्डल, हैदराबाद को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है।

[सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/1/81(4)]

S.O. 168(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Andhra Pradesh, hereby designates the Secretary, Andhra Pradesh Legislature, Hyderabad, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AP/1/81(1), dated 10th March, 1981.

[No. 100/CS-AP/1/81(4)]

का०आ० 169 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 10 मार्च, 1981 की अधिसूचना सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/1/81(1) के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर का उसके कर्तव्य के पालन में सहायता करने के लिए मनुक्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश विधान मण्डल, हैदराबाद को नियुक्त करता है।

[सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/1/81(5)]

S.O. 169(E).—In exercise of the power, conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Joint Secretary, Andhra Pradesh Legislature, Hyderabad, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AP/1/81(1) dated the 10th March, 1981, in the performance of his functions.

[No. 100/CS-AP/1/81(5)]

का०आ० 170 (अ).—राज्य सभा के लिए आन्ध्र प्रदेश में निर्वाचित सदस्य श्री टी० अन्जिया की उनकी पदावधि के अवसान में पूर्वस्थगपत्र देने के कारण राज्य सभा में एक रिक्ति हो गई है,

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग आन्ध्र

प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से वह प्रपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए, उक्त अधिनियम और तत्सम बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार तारीख 30 मार्च, 1981 से पूर्व एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/2/81(1)]

S.O. 170(E).—Whereas a vacancy has occurred in the Council of States due to the resignation of Shri T. Anjiah a member elected to the Council of States from Andhra Pradesh, before the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 30th March, 1981.

[No. 100/CS-AP/2/81(1)]

का०आ० 171 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 10 मार्च, 1981 की अधिसूचना सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/2/81(1) के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम 17 मार्च, 1981 (मंगलवार) तारीख
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 18 मार्च, 1981 (बुधवार)
- (ग) अभ्यधिताएं वापस लेने की अन्तिम 20 मार्च, 1981 (शुक्रवार) तारीख
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ 27 मार्च, 1981 (शुक्रवार) तो मतदान होगा; तथा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन 30 मार्च, 1981 (सोमवार) समाप्त कर दिया जाएगा

नियत करता है।

[सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/2/81(2)]

S.O. 171(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AP/2/81(1), dated 10th March, 1981,—

- (a) 17th March, 1981 (Tuesday), as the last date for making nominations;
- (b) 18th March, 1981 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) 20th March, 1981 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) 27th March, 1981 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) 30th March, 1981 (Monday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-AP/2/81(2)]

का०आ० 172 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 10 मार्च, 1981 की अधिसूचना सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/2/81(1) के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे

अपराहूत तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।

[सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/2/81(3)]

**S.O. 172(E).**—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 a.m. to 2.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AP/2/81(1), dated 10th March, 1981.

[No. 100/CS-AP/2/81(3)]

**का०आ० 173(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/2/81(1), तारीख 10 मार्च, 1981 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए सचिव, आन्ध्र प्रदेश विधान मण्डल, हैदराबाद को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है।

[सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/2/81(4)]

**S.O. 173(E).**—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Andhra Pradesh, hereby designates the Secretary, Andhra Pradesh Legislature, Hyderabad to be the Return-

ing Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AP/2/81(1), dated 10th March, 1981.

[No. 100/CS-AP/2/81(4)]

**का०आ० 174(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 10 मार्च, 1981 की अधिसूचना सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/2/81(1) के अनुसरण में राज्य सभा के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए संयुक्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश विधान मण्डल, हैदराबाद का नियुक्त करता है।

[सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/2/81(5)]

क० गणेशन, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग

**S.O. 174(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Joint Secretary, Andhra Pradesh Legislature, Hyderabad, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AP/2/81(1), dated the 10th March, 1981, in the performance of his functions.

[No. 100/CS-AP/2/81(5)]

K. GANESAN, Secy.